


उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
संख्या-558 /XLII-1/2018-04(02)2012
देहरादून: दिनांक 02 अक्टूबर, 2018
नवम्बर,

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-513/XLII-1/2018-04(02)2012 दिनांक 13.08.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त निम्नांकित सहायक निदेशकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में एतद्वारा तैनात/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	जनपद/तैनाती स्थान
1	श्रीमती वर्षा गौनियाल, सहायक निदेशक	देहरादून
2	श्री संजू प्रसाद ध्यानी, सहायक निदेशक	टिहरी गढ़वाल
3	श्री भूपेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक	हरिद्वार


2. सम्बन्धित सहायक निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, उसकी सूचना शासन एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(इन्दुधर बौड़ाई)
प्रभारी सचिव।

संख्या-558 /XLII-1/2018-04(02)2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा० संस्कृत शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
8. सहायक निदेशक, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
9. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
10. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।